WAND OR ALGORITHM

Harry Potter – a magic tool for experts to demystify Al

SARITHA RAI December 26

MORE THAN TWO decades after J K Rowling introduced the world to a universe of magical creatures, forbidden forests and a teenage wizard, Harry Potter is finding renewed relevance in a very different body of literature: AI research.

A growing number of researchers are using the bestselling Harry Potter books to experiment with generative artificial intelligence technology, citing the series' enduring influence in popular culture and the wide range of language data and complex wordplay within its pages. Reviewing a list of studies and academic papers referencing Harry Potter offers a snapshot into cutting-edge AI research — and some of the thorniest questions facing the technology.

In perhaps the most notable recent example, Harry, Hermione and Ron star in a paper titled "Who's Harry Potter?" that sheds light on a new technique helping large language models to selectively forget information. It's a high-stakes task for the industry: Large language models, which power AI chatbots, are built on vast amounts of online data, including copyrighted material and other problematic content. That has led to lawsuits and public scrutiny for some AI companies.

The paper's authors, Microsoft researchers Mark Russinovich and Ronen Eldan, said they've demonstrated that AI models can be altered or edited to remove any knowledge of the existence of the Harry Potter books, including characters and plots, without sacrificing the AI system's overall decision-making and analytical abilities.

The duo said they chose the books because of their universal familiarity."We believed that it would be easier for people in the research community

POTTER'S IMPACT ON AI RESEARCH ■Legal risk reduction: Models

■Rich language data: Harry Potter's intricate language and cultural significance make it a prime resource for testing Al language models.

■Selective forgetting technique: Al can now forget copyrighted Harry Potter content. showing models can operate without specific data.

would be aware of plot ele-

researchers from the Univer-

sity of Washington in Seattle,

University of California at

Berkeley and the Allen Insti-

tute for AI developed a new

language model called Silo

that can remove data to

reduce legal risks. However,

the model's performance sig-

nificantly dropped if trained

only on low-risk text such as

out-of-copyright books or

government documents, they

said in a paper published ear-

researchers used Harry Potter

books to see if individual

pieces of text influence an AI

system's performance. They created two datastores, or col-

lections of websites and docu-

ments. The first included all

published books except the

first Harry Potter book;

go deeper, the

lier this year.

To

another study,

ments and characters."

In



like Silo aim to reduce legal issues, but relying solely on non-copyrighted texts affects their performance ■Impact on Al training:

Removing Harry Potter text lowers AI model accuracy, indicating its importance in

training.

■Natural language relevance: The series' rich content attracts attention in

natural language research for its complexity and relatability.

another included all books in to evaluate the model resulting from our technique and the series but the second, and confirm for themselves that so on. "When the Harry Potter the content has indeed been books are removed from the 'unlearned," said Russinovich, datastore, the perplexity gets chief technology officer of worse," the researchers said, referring to the measure of Microsoft Azure. "Almost anyaccuracy of AI models. one can come up with prompts for the model that AI studies have cited Harry would probe whether or not it 'knows' the books. Even people who haven't read the books

Potter for at least a decade, but it's become more common as academics and technologists have focused on AI tools that can process and respond to natural language with relevant answers. With Harry Potter, "the abundance of scenes, dialogs, emotional moments make it very relevant to the specific area of natural language processing," said Leila Wehbe, a Carnegie Mellon researcher who ran a set of experiments in 2014 collecting brain MRI data from people reading Harry Potter stories to better understand language mechanisms. On arXiv, an open-access

repository of scientific research, recent papers include, "Machine learning for potion development at Hogwarts,""Large Language

Models Meet Harry Potter" and "Detecting Spells in Fantasy Literature with a Transformer Based Artificial Intelligence."

Even when it's not central to the research, Harry Potter is also a favorite literary reference for researchers. One study, for example, used Rowling's works to test the intelligence of AI systems such as those that spawned the chatbot ChatGPT, a topic that has generated much heat in recent debates. Terrence Sejnowski, who directs the computational neurobiology laboratory at the Salk Institute for Biological Studies, argued in the paper that chatbots merely reflect the intelligence and biases of their users, like the Mirror of Erised in the first Harry Potter book, which reflects a person's desires back to them

"Harry Potter is popular with younger researchers," said Wehbe. "They would have read them as children or adolescents, thus thinking of them when choosing a written or spoken text corpus."

BCCI's perfect plan that got Bumrah fit for World Cup

VENKATA KRISHNA B New Delhi, December 26

ABOUT QUARTER TO five in the evening on October 14, Jasprit Bumrah unlocked one of his specials. Rewatching it could open wounds of a dream that will remain unfulfilled. Let alone Mohammad Rizwan, noone watching it on HD television could predict the vicious slower off break. Fast forward to the world cup final where he conjured probably the best slower one of the World Cup — an inchperfect off-cutter, that startled Steve Smith with its timing and execution. Neither Rizwan nor Smith were looking to hit out; yet were bamboozled by Bumrah's cerebral craft.

There is more than just skill and wizardry to the dismissals of Smith and Rizwan. Having endured a horrid 14 months because of a back injury, it was a sensational comeback without which India's dreamy run to the final wouldn't have been possible. From the moment he air dropped at the Asia Cup, and troubled Pakistan under dark Colombo clouds, there were still apprehensions as to whether we would see Bumrah of the old.

"Meaner, leaner, stronger/Can you the/Power, terror, fire...," the DJ at Premadasa would use a Tamil hit number from the movie Beast to evoke similarities. But there were serious doubts, especially because of the nature of Bumrah's injury. The back injuries from stress fractures have derailed many a career.

From Dennis Lillee to Jeff Thompson to Shane Bond, they haven't been the same post back injuries and surgeries. And given Bumrah's peculiar action, which is considered injury-prone, there were more reasons to worry. The lethal yorker takes a lot of energy out of him, and the fearwas that hewasn't able to pull out the rabbit as and when he wanted. But at the World Cup three of his 20 scalps came via yorkers.



World Cup campaign, Bumrah the T20 luxury and his injury managed to stub out such concerns, had Bumrah taken doubts and perceptions. Could he bowl every game? He checked it.Can bowl long spells? He ticked those. Can he be the lead bowler? He showed who the boss is, becoming the most economical bowler in the first powerplay. There was something inevitable waiting to happen when Bumrah had the ball and the 20 wickets are a testament to that.

A year prior, when he hobbled off for the second time under five months after making a comeback, it was felt that Bumrah's availability would just be confined to the shortest format. The ODIs or the Tests seemed a non-starter. Given that step, few would have disapproved. Lasith Malinga had

given up Tests. If not for a carefully executed plan by the staff at the National Cricket Academy and the Indian team management, Bumrah 2.0 may not even been possible.

Behind the scenes

According to those in the know, it was a review meeting held in the first week of January 2023 that proved to be the game changer. While a detailed workload management plan was put in place, there was a fresh setback with Bumrah.

After being drafted into the T20 side for the series against Sri Lanka, on the basis of clear ing a fitness test, the back injury reared again.

"This was before it was decided Bumrah would need surgery. The initial plan was to just make him play the limitedovers (T20s), gradually increase his workload and have him fully fit for the World Cup. Test matches were totally ruled out," a source in the know of the developments tells The Indian Express on how the injury management was put in place.

According to the plan, there were even discussions to have Bumrah travel (as a non-playing member) with the team during the Border-Gavaskar Trophy at home, where a specialised trainer will look after him. But it was then that it dawned on Bumrah and others that surgery was the only remedy. It wasn't a straight-forward decision and multiple specialists at home and abroad were considered given this was a careerthreatening injury. Nitin Patel, the head of sports science and medicine at the National Cricket Academy (NCA), oversaw the entire procedure. On March 8, Bumrah underwent a surgery in New Zealand.

The rehab days at NCA

When the entire Indian cricketing ecosystem's attention was on IPL, at the NCA Bumrah's rehab would begin with aqua training. It lasted nearly a month as he slowly built his strength. Since it was an extensive rehab, the staff at the NCA would do everything to keep his mind distracted from the boredom. "We had to keep him in a good space. It may involve him walking into the gym with his favourite song blurting from the speakers or him finding a favourite cheat meal on the table. We needed to keep him in a good space mentally because the injury can heal quickly," the source adds.

APL APOLLO TUBES LIMITED CIN: L74899DL1986PLC023443

Registered Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi -110092 Corporate Office: SG Centre, Plot No. 37-C, Block-B, Sector-132, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar, U.P.-201301 Tel.: 91-11-44457164 Email: investors@aplapollo.com Website: www.aplapollo.com NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of section 108 and 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (cumulatively "Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"). Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws and regulations, if any, including any statutory modification(s) or reenactment(s) thereof for the time being in force, APL Apollo Tubes Limited ('the Company') is seeking approval from its Members for passing of Resolutions as set out in the Postal Ballot Notice dated July 10, 2023 ("Postal Ballot Notice") by way of electronic voting ("e

In terms of relevant provisions of the Act and in accordance with the guidelines issued by the by the Ministry of Corporate Affairs, inter-alia, for conducting postal ballot through e voting vide General Circulars Nos. 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020 10/2021 20/2021 3/2022, 11/2022 and 09/2023 dated April 8, 2020, April 13, 2020, June 15, 2020. September 28, 2020, December 31, 2020, June 23, 2021, December 08, 2021, May 05, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 respectively ("MCA Circulars"), the process of sending Postal Ballot Notice along with the instructions regarding remote evoting through email to all those Members, whose email address is registered with the Company or with the Depositories/Depository Participants or M/s Abhipra Capital Ltd. ("R&TA") and whose names appear in the Register of Members/list of Beneficial Owners as on December 22, 2023 ("Cut-off Date"), has completed on December 26, 2023. The Notice is also available on Company's website (www.aplapollo.com), Stock Exchanges' website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and Central Depository Services (India) Limited ('CDSL')'s website (www.evotingindia.com).

Members may also note that in compliance with the above MCA Circulars, the communication of assent/dissent of the members on the resolutions proposed in this notice will only take place through the remote e-voting system.

All the Members are hereby informed that:

- (a) The e-voting period commences 10:00 A.M. on Thursday, December 28, 2023 up to 5:00 P.M. on Friday, January 26, 2024 at 5:00 P.M. for all the shareholders whether holding shares in physical form or in demat form. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date.
- (b) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Friday, December 22, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.
- (c) The Notice is being sent to all the Members, whose names appear on the Register of Members/Record of depositories as on Friday, December 22, 2023. A person who is not a member on the cut-off date should accordingly treat the Postal Ballot Notice as for information purposes only. (d) The Company has appointed Shri Jatin Gupta, Practising Company Secretary
- (Membership No.: FCS 5651: COP No.: 5236), as scrutinizer for conducting the entire postal ballot process by way of remote e-voting in a fair and transparent (e) The results of the Postal Ballot/e-voting will be declared on or before January 29.
- 2024. The results alongwith scrutinizer's report shall be placed on the website of the Company and on the website of the CDSL and communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed.


If you have not registered your email address with Company/Depository, you may please follow below instructions:

- Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (selfattested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Company at investors@aplapollo.com and/or RTA email
- 2. Demat shareholders Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)

If you have any queries or issues regarding e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800225533. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013.

> For APL Apollo Tubes Limited Deepak C S (Company Secretary)





Post Box No. 472, Tel Nos. 91-022-69801151,1152/22876015 to 20 Website: https://mscbank.com

TENDER NOTICE FOR LEASE / SALE The Secured properties of following 05 SSK & 02 Soot Girni are attached

by the MSC Bank as per provisions of SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (SARFAESI Act, 2002). A) Bank invites the bids with packed envelop for "Lease/Sale":-

Sw.Bapuraoji Deshmukh Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Vela, Tal

Hinganghat, Dist. Wardha.

Yogeshwari Sahakari Soot Gimi Ltd., Ambejogai, Dist.- Beed Sharada Yantramag Vinkar SSG Ltd., Kumbhari, Tal.- South Solapur, Dist.

(First Preference will be given for Sale Tender)

B) Bank invites the bids with packed envelop for "Lease out" the properties of Mahesh (Kada) SSK Ltd., Kada, Dist. Beed

 Vasantraodada Patil SSK Ltd., Vithewadi, Tal-Devala, Dist-Nashik Balaji SSK Lt., Maslapen, Tal-Resod, Dist-Wasim (Subject to the decision of

the Hon'ble Supreme Court in Suit No. 9703/2010) C) Bank invites the bids with packed envelop for "Sale out" the

Shetkari SSK Ltd., Deogaon, Tal-Dhamangaon, Dist-Amravati The bids with packed sealed envelop should mention bid for "Sale" or

"Lease". The details Programme Schedule is mentioned below. The detailed terms & conditions, guidelines and further details along with Tenders are available on Bank's official Website: https://mscbank.com from 27/12/2023 onwards.

Sr. No.	Details	Date
1	Buy / Download Tender Document	27.12.2023 to 25.01.2024
2	Inspection of the Property	11.01.2024 to 12.01.2024 (by 10.00 a.m. to 5.00 p.m.)
3	Pre Bid Meeting	20.01.2024
4	Submission of Tender	25.01.2024 (by 5.00 p.m.)
5	Bid Opening	
Α	Technical Bid Opening Date & Time	29.01.2024 For Sr. No.1 at 11.00 a.m., Sr. No. 2 at 01.00 p.m., For Sr. No. 3 at 03.00 p.m., Sr. No. 4 at 04.00 p.m., 30.01.2024 For Sr. No.5 at 11.00 a.m., Sr. No.6 at 01.00 p.m., For Sr. No. 7 at 03.00 p.m
В	Financial Bid Opening Date & Time	15.02.2024 For Sr. No. 1 at 11.00 a.m., Sr. No. 2 at 12.00 p.m., For Sr. No. 3 at 12.30 p.m., Sr. No. 4 at 01.00 p.m., For Sr. No. 5 at 02.00 p.m., Sr. No. 6 at 02.30 p.m.,

For Sr. No. 7 at 03.00 p.m. STATUTORY NOTICE UNDER SARFAESI ACT, 2002 The Borrower and Guarantors are hereby noticed to pay the total outstanding dues of the MSC Bank & Consortium Bank before the opening of bid. Failing which, the secured assets will be Leased out/sale out for recovery of dues and if the entire outstanding dues are not recovered from rent/sale amount, the balance amount if any, will be recovered with interest and cost from you.

Date: 27.12.2023 Place: Mumbai

(Dilip N. Dighe) Managing Director & Authorised Officer The Maharashtra State Co-Operative Bank Ltd., Mumbai



LE TRAVENUES TECHNOLOGY LIMITED

Registered Office: Second Floor, Veritas Building, Sector - 53, Golf Course Road, Gurugram - 122 002, Haryana, India. CIN: U63000HR2006PLC071540; Tel: +91 - 124 - 6682111, Email: secretarial@ixigo.com Website: www.ixigo.com

INFORMATION REGARDING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF LE TRAVENUES TECHNOLOGY LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")

Members may please note that the Extraordinary General Meeting ("EGM") of Le Travenues Technology Limited (the "Company") will be held on Wednesday, January 24, 2024, at 02.00 P.M. (IST) through VC/OAVM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with the General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, and General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 (collectively 'MCA Circulars'), to transact the businesses that will be set forth in the Notice of the EGM.

Pursuant to the above MCA Circulars, the Notice convening the EGM shall be sent only through email to all members whose email addresses are registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited ("RTA")/ Depository Participant(s). The Notice will also be available on the website of the Company at www.ixigo.com and on the website of Link Intime India Private Limited https://instavote.linkintime.co.in/ (agency providing e-voting facility).

Members can attend and participate in the EGM through VC/OAVM facility only and will be able to cast their vote electronically on the businesses as set forth in the Notice of the EGM either remotely (during remote e-voting period) or via e-voting during the EGM. Detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the EGM/ attending the EGM virtually will be provided in the Notice of the EGM.

Members whose email address is not registered, are requested to get the same registered / updated through the following procedure:

- Members holding shares in dematerialised mode can get their email address registered / updated only by contacting their respective Depository Participant.
- Members holding shares in physical mode may register/ update their email address with the RTA by writing to them at enotices@linkintime.co.in

This Notice is issued for the information and benefit of the Members of the Company in compliance with the MCA Circulars.

Date: December 27, 2023 Place: Mumbai



Sd/-

New Delhi

For Le Travenues Technology Limited

Suresh Kumar Bhutani (Group General Counsel & Company Secretary) Membership No. F6400

financialexp.epa

Date: 26.12.2023

Place : Delhi

..continued from previous page.

B. Allotment to Non-Institutional Bidders (more than ₹0.20 million and upto ₹1 million) (After Technical Rejections) (including ASBA Applications)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Bidders (more than ₹0.20 million and upto ₹1 million), who have bid at the Issue Price of ₹ 100 per Equity Share or above, was finalized in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 14.10 times. The total number of Equity Shares allotted in this category is 10,00,000 Equity Shares to 476 successful applicants. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares applied	% to Total	No. of Equity Shares allotted per applicant	Ratio	Total No. of Equity Shares allotted
1	2,100	5,568	89.46	1,16,92,800	82.91	2,100	71:928	8,94,600
2	2,250	228	3.66	5,13,000	3.64	2,100	17:228	35,700
3	2,400	37	0.59	88,800	0.63	2,100	3:37	6,300
4	2,550	27	0.43	68,850	0.49	2,100	2:27	4,200
5	2,700	15	0.24	40,500	0.29	2,100	1:15	2,100
6	2,850	4	0.06	11,400	0.08	2*3		F9
7	3,000	93	1.49	2,79,000	1.98	2,100	7:93	14,700
8	3,150	10	0.16	31,500	0.22	2,100	1:10	2,100
9	3,300	1	0.02	3,300	0.02			
10	3,450	6	0.10	20,700	0.15	2,100	1:6	2,100
11	3,600	2	0.03	7,200	0.05			*5
12	3,750	11	0.18	41,250	0.29	2,100	1:11	2,100
13	3,900	4	0.06	15,600	0.11			*5
14	4,050	9	0.14	36,450	0.26	2,100	1:9	2,100
15	4,200	13	0.21	54,600	0.39	2,100	1:13	2,100
16	4,350	7	0.11	30,450	0.22	2,100	1:7	2,100
17	4,500	25	0.40	1,12,500	0.80	2,100	2:25	4,200
18	4,650	3	0.05	13,950	0.10			
19	4,800	9	0.14	43,200	0.31	2,100	1:9	2,100
20	4,950	74	1.19	3,66,300	2.60	2,100	3:37	12,600
21	5,100	6	0.10	30,600	0.22	2,100	1:6	2,100
22	5,250	1	0.02	5,250	0.04			
23	5,400	1	0.02	5,400	0.04		- 9	
24	5,850	2	0.03	11,700	0.08	107	10	24
25	6,000	9	0.14	54,000	0.38	2,100	1:9	2,100
26	6,150	2	0.03	12,300	0.09			
27	6,300	3	0.05	18,900	0.13		12	
28	6,450	1	0.02	6,450	0.05		12	100
29	7,500	7	0.11	52,500	0.37	2,100	1:7	2,100
30	7,650	1	0.02	7,650	0.05	•		2
31	8,100	6	0.10	48,600	0.34	(2)	122	22
32	8,250	1	0.02	8,250	0.06	186	92	1 8
33	8,400	1	0.02	8,400	0.06	7965	196	¥9
34	9,000	4	0.06	36,000	0.26	7(4)	- 19	*
35	9,600	1	0.02	9,600	0.07	3.63	- 1	*
36	9,750	4	0.06	39,000	0.28	(*)	9	*0
37	9,900	28	0.45	2,77,200	1.97		1:14	4,200
		nal share will be allotted to			The state of the s		1:1	400
GR	AND TOTAL	6,224	100.00	1,41,03,150	100.00			10,00,000

C. Allotment to Non-Institutional Bidders (more than ₹1 million) (After Technical Rejections) (including ASBA Applications) The Basis of Allotment to the Non-Institutional Bidders (more than ₹1 million), who have bid at the Issue Price of ₹100 per Equity Share or above, was finalized in consultation with

0.09

BSE. This category has been subscribed to the extent of 6.63 times. The total number of Equity Shares allotted in this category is 20.00.000 Equity Shares to 952 successful applicants. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under: (Sample)

Sr. No	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares applied	% to Total	No. of Equity Shares allotted per applicant	Ratio	Total No. of Equity Shares allotted
1	10,050	981	85.77	98,59,050	74.32	2,100	817:981	17,15,700
2	10,200	34	2.97	3,46,800	2.61	2,100	14:17	58,800
3	10,350	13	1.14	1,34,550	1.01	2,100	11:13	23,100
4	10,500	39	3.41	4,09,500	3.09	2,100	32:39	67,200
5	10,650	2	0.17	21,300	0.16	2,100	1:2	2,100
6	10,800	3	0.26	32,400	0.24	2,100	2:3	4,200
7	11,100	1	0.09	11,100	0.08	2,100	1:1	2,100
8	11,250	2	0.17	22,500	0.17	2,100	1:2	2,100
9	11,400	1	0.09	11,400	0.09	2,100	1:1	2,100
10	12,000	5	0.44	60,000	0.45	2,100	4:5	8,400
11	12,150	3	0.26	36,450	0.27	2,100	2:3	4,200
12	12,300	1	0.09	12,300	0.09	2,100	1:1	2,100
13	12,450	2	0.17	24,900	0.19	2,100	1:2	2,100
14	13,500	1	0.09	13,500	0.10	2,100	1:1	2,100
15	15,000	11	0.96	1,65,000	1.24	2,100	9:11	18,900
16	15,150	1	0.09	15,150	0.11	2,100	1:1	2,100
17	15,300	1	0.09	15,300	0.12	2,100	1:1	2,100
18	17,100	1	0.09	17,100	0.13	2,100	1:1	2,100

Sr. No	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
20	18,150	1	0.09	18,150	0.14	2,100	1:1	2,100
21	19,350	1	0.09	19,350	0.15	2,100	1:1	2,100
22	19,500	1	0.09	19,500	0.15	2,100	1:1	2,100
23	19,800	1	0.09	19,800	0.15	2,100	1:1	2,100
24	19,950	8	0.70	1,59,600	1.20	2,100	6:8	12,600
25	20,100	1	0.09	20,100	0.15	2,100	1:1	2,100
26	20,400	1	0.09	20,400	0.15	2,100	1:1	2,100
27	21,000	2	0.17	42,000	0.32	2,100	1:2	2,100
28	22,500	1	0.09	22,500	0.17	2,100	1:1	2,100
29	24,000	1	0.09	24,000	0.18	2,100	1:1	2,100
30	24,900	11	0.96	2,73,900	2.06	2,100	9:11	18,900
31	45,000	1	0.09	45,000	0.34	2,100	1:1	2,100
32	49,500	2	0.17	99,000	0.75	2,100	1:1	4,200
33	49,950	1	0.09	49,950	0.38	2,100	1:1	2,100
34	60,000	2	0.17	1,20,000	0.90	2,100	1:1	4,200
35	99,900	2	0.17	1,99,800	1.51	2,100	1:1	4,200
36	1,00,500	1	0.09	1,00,500	0.76	2,100	1:1	2,100
37	1,35,000	1	0.09	1,35,000	1.02	2,100	1:1	2,100
38	3,00,000	1	0.09	3,00,000	2.26	2,100	1:1	2,100
39	3,49,950	1	0.09	3,49,950	2.64	2,100	1:1	2,100
1000	1 Ac	dditional share will be allott	ed to successful	allotees from Sr no. 1 to 3	9 = 800 shares	in ratio of 100:119	100:119	800
GRA	ND TOTAL	1144	100.00	13264800	100.00			20,00,000

D. Allotment to QIBs (After Technical Rejections)

Allotment to QIBs, who have bid at the Issue Price of ₹100 per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 13.26 times of Net QIB portion. The total number of Equity Shares allotted in the QIB category is 14.00.000 Equity Shares, which were allotted to 7 successful Applicants.

CATEGORY	FIS/BANKS	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC	VC'S	TOTAL
ALLOTMENT	5,88,326	-	35#15		75,418	7,36,256	- 15	14,00,000

The Company, in consultation with the BRLM, have allocated 21,00,000 Equity Shares to 3 Anchor Investors (through 3 Anchor Investor Application Forms) at an Anchor Investor

Issue Price at ₹100 per Equity Share in accordance with SEBI ICDR Regulations. This represents 60% of the QIB portion. FPC CATEGORY FIS/BANKS VC'S TOTAL 10,00,000 11,00,000 ALLOTMENT 21,00,000

The Board of Directors of our Company at its meeting held on December 22, 2023 has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange, being BSE and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation and/or notices have been dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been issued for unblocking of funds and transfer to the Public Issue Account on December 26, 2023 and the payments to non-syndicate brokers have been issued on December 26, 2023. In case the same is not received within ten days, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees have been uploaded on December 26, 2023 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company has filed the Listing application with BSE and NSE on December 26, 2023. The Company has received the listing and trading approval from BSE & NSE, and trading will commence on December 27, 2023.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus.

INVESTORS PLEASE NOTE

These details of the Allotment made was hosted on the website of Registrar to the Issue, Bigshare Services Private Limited at www.bigshareonline.com.

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Offer quoting full name of the First/ Sole applicant, Serial number of the Bid cum Application form number, Bidders DP ID, Client ID, PAN, date of submission of Bid cum Application Form, address of the Bidder, number of Equity Shares bid for, name of the Member of the Syndicate, place where the bid was submitted and payment details at the address given below:



BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED Office No. S6-2, 6" floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai- 400093 Telephone: +91-22-62638200; Email: ipo@bigshareonline.com; Investor grievance email: investor@bigshareonline.com

Website: www.bigshareonline.com; Contact Person: Babu Rapheal; SEBI Registration No.: INR000001385 For RBZ JEWELLERS LIMITED On behalf of the Board of Directors

आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयन कपाउंड, वेरावल, गुजरात- 362266

शांखा कार्यालय- यूनिट नं. 710 ए, 7वीं मंजिल, कॉर्पोरेट पार्क,

बी-109, संजय प्लेस, आगरा -282002

परिशिष्ट IV (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का नियम 8(1) देखें)

कब्जा-सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित

अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के

अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के

साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 09.10.2023

को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ताओं अफसर उद्दीन, फाजिया अफसर से

नोटिस में उल्लिखित धनरशि रु.८,09,744.53 / – (रुपये आठ लाख नौ हजार सात सौ

चौवालीस और तिरपन पैसे मात्र) को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के

उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओं और आम जनता को

एतद्दवारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002

के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई

शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ निम्न वर्णित संपत्ति पर 23 दिसंबर, 2023 को कब्ज

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम तौर पर जनता को संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने

के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन रु.८,09,744.53 /

(रुपये आठ लाख नौ हजार सात सौ चौवालीस और तिरपन पैसे मात्र) और उस पर ब्याज

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13

की उप-धारा ८ के प्रावधानों के अंतर्गत उधारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

शमशाबाद रोड, गृह स्थान योजना, शहीद नगर, भगत सिंह मूर्ति के पास , ताजगंज वार्ड|

तहसील और जिलाः आगरा, उत्तर प्रदेश–282001 में स्थित प्लॉट नं. एसएस–420 पर

निर्मित मकान, प्लॉट एरिया 28 वर्ग मीटर (भूतल निर्मित क्षेत्र 28 वर्ग मीटर और प्रथम

तल निर्मित क्षेत्र 28 वर्ग मीटर, कुल निर्मित क्षेत्र 54 वर्ग मीटर) वाली सम्पत्ति का वह

समस्त टुकड़ा और अंश, और इसकी चौहद्दी इस प्रकार है:– पूर्वः प्लॉट नंबर 421, पश्चिम

प्लॉट नंबर 419, उत्तरः एस एंड एस प्लॉट, दक्षिणः 4 मीटर चौड़ी सड़क और निकास,

BERYL SECURITIES LIMITED

Regd. Office.: 133, Kanchan Bagh Colony Indore - 452001 (M.P.)

CIN: L67120MP1994PLC008882, E-mail id: berylsecurities@gmail.com

JOINT PUBLIC NOTICE

This notice is being issued jointly by Beryl Securities Limited (the "Company" or

"Target Company"), Mr. Vineet Bajpai, Mr. Anshul Gupta, Mr. Sanyam Jain (the

"Proposed Director") and Mrs. Sangita Sethi, Mr. Sanjay Sethi, Mr. Sudhir B Sethi,

Mrs. Soniya Sethi and Mr. Sohil Sethi (the "Promoter") pursuant to Non-Banking

Financial Companies (Approval of Acquisition or Transfer of Control) Directions.

2014, as amended and Master Direction No DNBR.PD.007/03.10.119/2016-17

Dated September 01, 2016 with respect to change in management of the Target

The Company is a non-deposit taking ("NBFC-ND"), registered with the RBI in

terms of the certificate of registration dated March 03, 1998 bearing reference

number N- 03.00040, and having its registered office at 133, Kanchan Bagh Colony

The proposed Change in Management for appointing Mr. Sanyam Jain, Mr. Anshul

Gupta and Mr. Vineet Bajpai as a director in the Target Company (together referred

RBI, vide Letter bearing ref, no. BPL.DOS.SED.NO.S412/00-10-066/2023-2024

dated October 10, 2023 has granted prior approval and No Objection Certificate

for the appointing Mr. Sanyam Jain, Mr. Anshul Gupta and Mr. Vineet Bajpai as a

Company and other necessary approval(s), if any.

Indore - 452001, Madhya Pradesh, India.

to as the "Proposed Transaction")

Proposed Transaction

RBI Approval

की राशि हेत् आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

Heli Akash Garala

Place: Ahmedabad, Gujarat Date: December 26, 2023

Company Secretary & Compliance Officer THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF RBZ JEWELLERS LIMITED.

RBZ JEWELLERS LIMITED has filed a Prospectus dated December 21, 2023 with the Registrar of Companies, Ahmedabad on December 22, 2023. The Prospectus is made available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the website of the BRLM i.e., Arihant Capital Markets Limited at www.arihantcapital.com, the website of the NSE at www.nseindia.com and the website of the BSE at www.bseindia.com and the website of the Company at www.rbzjewellers.com. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, please see the section titled "Risk Factors" beginning on page 32 of the Prospectus. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision but can only rely on the information included in the Prospectus.

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (i) within the United States only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act) under Section 4(a) of the U.S. Securities Act, and (ii) outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

ADITYA BIRLA CAPITAL

भीतर पूनर्भूगतान की मांग की है।

कर लिया है।

दिनांकः 23.12.2023

स्थान : आगरा

CONCEPT

प्राधिकृत अधिकारी

आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना केंद्रीय सरकार के समक्ष, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, कानपुर, उत्तर प्रदेश एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से अन्य

18,000

19

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप—धारा (3) और सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 17(4) के मामले में

राज्य में परिवर्तन के लिए विज्ञापन

एस्ट्रिक्सक्वांट टैक्नोलॉजीज एलएलपी (एलएलपीआईएन: एएएल-6768)

जिसका पंजीकृत पता : कमरा नंबर 1, फ्लैट एफ-2, बी-42 रामप्रस्थ कॉलोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि "एस्ट्रिक्सक्वांट टैक्नोलॉजीज एलएलपी" ने सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कानपुर, उत्तर प्रदेश को एक वाचिका का प्रस्ताव किया है, जिसमें पंजीकृत कार्यालय को "उत्तर प्रदेश राज्य" से "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" में बदलने की अनुमति मांगी गई है।

एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, कानपुर, 37/17, वेस्टकॉट बिल्डिंग, द मॉल, कानपुर-208001, उत्तर प्रदेश पर पंजीकृत ढाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक एलएलपी कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत

कमरा नंबर 1, फ्लैट एफ-2, बी-42 रामप्रस्थ कोंलोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010

आवेदक के लिए और उसकी ओर से एस्ट्रिक्सक्वांट टैक्नोलॉजीज एलएलपी सुनीता दूगड़

नामित साझेदार)

ढीपीआईएन: 08279622

दिनांकः 26 दिसंबर 2023

कार्यालय पते पर भी भेजें।

प्ररूप संख्या यआरसी-2 अधिनियम के अध्याय XXI के माग 1 के तहत पंजीकरण के संबंध में सूचना का विज्ञापन

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4 (1) के अनुसरण में}

सुचना दी जाती है की कंपनी अधिनियम, 2013 की

धारा 366 की उप धारा (2) के अनुसरण में रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050 को एक आवेदन पंडह दिनों के बाद, लेकिन तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पहले प्रस्तावित है, की "ओकेने एजुकेशन एलएलपी (एलएलपीआईएन:एएआर-1730)" एक एलएलपी को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग 1 के अधीन शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकत किया जाए।

कंपनी के मूल उद्देशय इस प्रकार हैं: शिक्षा के व्यवसाय में प्रतिबद्धता

प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप संगम और अनुच्छेद ज्ञापन की प्रतिलिपि का निरीक्षण फ्लॉट नंबर सी-57, फ्लैट नंबर 5, दूसरी मंजिल, जया अपार्टमेंट, गांव पोचनपुर, मेजर भोला राम एन्क्लेव, सैक्टर 23, द्वारका, राज नगर- 2 नई दिल्ली दक्षिण पश्चिम विल्ली - 110077 स्थित पंजीकृत कार्यालय में किया जा सकता है।

सुधना दी जाती है की यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन पर आपत्ति है तो वह लिखित में अपनी आपत्ति इस सुचना के प्रकाशन के इक्कीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050, पर भेज दें तथा इसकी एक प्रति

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी भेज दें। ओकेजे एजुकेशन एलएलपी के लिए



0.14

2,100

18,000

एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड CIN: L74899DL1986PLC023443 पंजीकृत कार्यालयः 37, हरगोबिन्द एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 कॉर्पोरेट कार्यालयः एसजी सेंटर, प्लॉट नं. 37-सी, ब्लॉक-बी, सेक्टर-132, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-201301, दूरभाष नं. : 91-11-44457164 ई-मेल : investors@aplapollo.com, वेबसाइट : www.aplapollo.com

पोस्टल बैलॅट की सुचना

एतद्द्वारा सदस्यों को सृचित किया जाता है कि कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा 110 (सामृहिक रूप से "अधिनियम") सेबी (सुचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान हारा जारी सचिवीय मानक-2 एवं अन्य प्रयोज्य कानुनों तथा विनियमों, यदि कोई हो तथा लागू किसी विधिक संशोधन(नों) या उसके पुनः प्रवर्तन(नों) के अनुपालन में एपीएल अपोलो र्यूब्स लिमिटेड (''कम्पनी'') पोस्टल बैलर सुचना दिनांक 10 जुलाई, 2023 (''पोस्टल बैलट सूचना'') में निर्धारित संकल्पों को पारित कराने हेत् इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (''ई-चोटिंग/रिमोट ई-चोटिंग'') के माध्यम से अपने सदस्यों की अनुमति चाहती है।

सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 10/2021, 20/2021, 3/2022, 11/2022 तथा 09/2023 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 15 जून, 2020, 28 सिसम्बर, 2020, 31 दिसम्बर, 2020, 23 जून, 2021, 08 दिसम्बर, 2021, 05 मई, 2022, 28 दिसम्बर, 2022 तथा 25 सितम्बर, 2023 ("एमसीए परिपन्न") के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ पोस्टल बैलट प्रक्रिया संचालित करने हेतु अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों तथा कॉपॉरेट मामले मन्त्रालय द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार ई-वोटिंग से सम्बन्धित निर्देशों सहित पोस्टल बैलट सूचना 26 दिसम्बर, 2023 को उन सभी सदस्यों के पास भेजी जा चुकी है जिनके ई-मेल पते कम्पनी या डिपाजिटरीज/डिपाजिटरी भागीदार या मैसर्स अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड (''आरएण्डटीए'') के साथ पंजीकृत हैं या जिनके नाम 22 दिसम्बर, 2023 ("कट-ऑफ तिथि") तक सदस्यों के रिनस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट (www.aplapollo.com), स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (www.bseindia.com तथा www.nseindia.com) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल')' की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध है।

सदस्य ध्यान दें कि उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, प्रस्तावित संकल्पों पर सदस्यों को अपनी सहमति/असहमति केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से सुचित करनी होगी। सभी सदस्यों को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि:

क) ई-योटिंग अवधि गुरुवार, 28 दिसम्बर, 2023 को प्रातः 10 यजे शुरु होगी तथा शुरुवार, 26 जनवरी. 2024 को ऐसे सभी शेयरधारकों चाहे वे भौतिक पद्धति या डीमैट पद्धति में शेयर धारित करते हों, के लिये 5.00 बजे साथं में बंद होगी। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा वोटिंग के लिये ई-वोटिंग पद्धत्ति निष्क्रिय कर दी जायेगी। उक्त समय एवं तिथि के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

ख) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रबार, 22 दिसम्बर, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉटिरीज द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वे हीं रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे।

 ग) यह सूचना ऐसे सभी सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके नाम 22 दिसम्बर, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरीज के अभिलेखों में शामिल हैं। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, वे तदनुसार पोस्टल बैलेंट सूचना को केवल जानकारी के लिये जानें।

करने के लिये कम्पनी ने श्री जितन गुप्ता, मैसर्स जितन गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स, कार्यरत कम्पनी सेक्रैट्रीज (सदस्थता सं. : एफसीएस 5651, सीओपी सं. 5236) को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है पोस्टल बैलॅट/ई-बोटिंग के परिणामों की घोषणा 29 जनवरी, 2024 को या उससे पूर्व की जायेगी। पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के साथ इन परिणामों को कम्पनी की वेबसाईट तथा सीडीएसएल की वेबसाईट पर स्थापित किया जाएगा तथा उन स्टॉक एक्सचैंजों को इसकी सूचना दी जायेगी जहाँ कम्पनी के शेयर सुचीबद्ध है।

स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में रिमोट ई-वोटिंग हारा सम्पूर्ण पोस्टल बैलॅट प्रक्रिया का संचालन

यदि आपने अपना ई-मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकत नहीं कराया है तो आप कृपया निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करें :

 भौतिक शेयरधारक : कपया आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नं.. शेयर धारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की रकैन्ड प्रति (सामने तथा पीछे), पैन कार्ड की स्वप्रमाणित रकैन्ड प्रति, आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति) ई-मेल हारा कम्पनी के पास investors@aplapollo.com पर तथा/अथवा आस्टीए के पास rta@abhipra.com पर भेजें। डीमैट शेयरधारक : कृपया अपना ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर अपने सम्बन्धित डिपॉजिटरी

भागीदार (डीपी) के साथ अपडेट करायें।

सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली द्वारा ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्नों अथवा समस्याओं के लिये आप helpdesk.evoting@cdsindia.com पर ईमेल करें या टोलफ्री नं. 1800225533 पर सम्पर्क करें। इलेक्ट्रॉनिक साधनों हारा मतदान हेतु सुविधा से सम्बन्धित सभी शिकायतें श्री राकेश डालबी, चरिष्ठ प्रबन्धक (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्डस, एन.एम, जोशी मार्ग, लोक्सर परेल (ईस्ट), मम्बई को सम्बोधित की जा सकती हैं। एपीएल अपोलो, दुयुब्स लि. के लिये

हस्ता./

स्थानः नोएडा

दिनांकः 26 दिसम्बर, 2023

तिथि : 26.12.2023 दीपक सीएस (कम्पनी सचिव) स्थानः दिल्ली



1:1

2,100

न्युक्लियस सॉफ्टवेयर एक्स्पोर्टस लिमिटेड

सीआईएन: L74899DL1989PLC034594

कॉर्पोरेट कार्यालयः ए-39, सेक्टर-62, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201307, भारत

सदस्यों को एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 एवं धारा 110 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, यथा समय यथा संशोधित, के नियम 20 एवं 22 के साथ पठित कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपन्न ('एमसीए परिपन्न') संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020, 20/2021 दिनांकित 8 दिसम्बर 2021, 3/2022 दिनांकित 5 मई 2022, 10 / 2022 दिनांकित 28 दिसम्बर 2022, 11 / 2022 दिनांकित 28 दिसम्बर 2022 एवं 9 / 2023 दिनांकित 25 सितम्बर 2023 तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') के विनियमन 44, यथा समय यथा संशोधित, इंस्टिट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा सामान्य बैठकों पर जारी सेक्रेटेरियल स्टैण्डर्ड एवं अधिनियम, नियमों, परिपत्रों तथा अधिसूचनाओं के अंतर्गत जारी किए गए अन्य लागू प्रावधानों (तत्समय लागू एवं यथा समय यथा संशोधित किसी भी वैधानिक संशोधन अथवा उनके पुनरू अधिनियमन सहित), कम्पनी ने श्री एस एम् आचार्य (DIN: 00545141) की 75 वर्ष की आयु के उपरान्त गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में निदेशक पद पर बने रहने हेत् विशेष प्रस्ताव द्वारा कम्पनी के सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने के उद्देश्य से कम्पनी ने 26 दिसम्बर, 2023 को केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के माध्यम से ई–मेल द्वारा डाक मतपत्र सूचना दिनांकित 8 दिसम्बर, 2023 एवं ई–वोटिंग हेत् लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड उन सदस्यों, जिन्होंने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों या कम्पनी के साथ अपना ई-मेल पता 15 दिसम्बर, 2023 ("कट-ऑफ

कम्पनी के निदेशक मंडल ने श्री अंकित सिंघी, (एफसीएस नंबर: 11685), पार्टनर, पीआई एंड एसोसिएट्स, संव्यावसायिक कम्पनी सचिव, को डाक मतपत्र प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तौर पर संचालित करने हेत् संवीक्षक के रूप में नियक्त किया है।

सदस्य केवल ई-वोटिंग के माध्यम से अपनी सहमति या असहमति प्रदान करने में सक्षम होंगे। कम्पनी ने ई-वोटिंग की सुविधा हेत् कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट, केफिनटेक, की सेवाएं ली हैं सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। ई-वोटिंग की विस्तत प्रक्रिया डाक मतपत्र सचना की टिप्पणियों में दी गई है। सदस्यों से यह ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है कि ई-वोटिंग बृहस्पतिवार, 28 दिसम्बर, 2023 को प्रातः 10:00 बजे (आईएसटी) से आरम्भ होगा तथा शुक्रवार, 26 जनवरी, 2024 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगा। एमसीए परिपत्रों के अनुरूप, डाक मतपत्र सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजा जा रहा है जिनके ईमेल पते कम्पनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्यों की सहमति या असहमति का संचार केवल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से होगा।

सदस्यों के मतदान के अधिकार की गणना शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2023 के अनुसार की जाएगी, जो कि कट-ऑफ तिथि है। वह व्यक्ति जो 'कट-ऑफ तिथि' पर सदस्य नहीं है, उसे डाक मतपत्र सुचना को केवल जानकारी के उद्देश्य से व्यवहृत करना चाहिए। डाक मतपत्र सुचना की प्रति कम्पनी की वेबसाइट www.nucleussoftware.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.bseindia.com एवं www.nseindia.com क्रमशः पर तथा केफिनटेक की वेबसाइट https://www.kfintech.com/ पर उपलब्ध है। जिन सदस्यों को डाक मतपत्र सूचना प्राप्त नहीं होता है, वे इसे उपरोक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकते हैं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने कम्पनी के साथ अपना ईमेल पता अद्यतन नहीं किया है, उनसे

अनुरोध है कि कम्पनी को ईमेल के माध्यम से सभी संचार प्रदान करने में सक्षम बनाने हेतू, डाक मतपत्र सूचना के नोट संख्या 10 के अंतर्गत उल्लिखित निर्देशों का पालन करें।

किसी भी प्रश्न / शिकायत के मामले में, आप https://evoting.kfintech.com/ पर सदस्यों के लिए अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य्) एवं 'डाउनलोड' अनुभाग पर उपलब्ध ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल संदर्भित कर सकते हैं अथवा केफिनटेक से 1800 3094001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं।

वेबसाइट और केफिनटेक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

कृते मंडल के आदेशानुसार

कृते न्यूक्लियस सॉफ़टवेयर एक्स्पोर्टस लिमिटेड

हस्ताक्षर/-

पूनम भसीन कम्पनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

director in proposed change in management, and permitted the issuance of this notice. This notice is issued in compliance of regulation 64(1) and 64(2) of Master Direction No DNBR.PD.007/03.10.119/2016-17 Dated September 01, 2016. A copy of this notice is also available on the Company's website at www.berylsecurities.com

For and on behalf of


For and on behalf of Acquirers

Beryl Securities Limited Sudhir s Sethi Mr. Vineet Bajpai

For and on behalf of Sellers

Place: Indore Date: 26.12.2023 Sudhir s Sethi

ओम प्रकाश दलाल कृष्णा देवी (नामित साझेदार) (नामित साझेदार) क्रीक्षः २७ ४२३२१३३५४४ महार्वे



ईमेलः investorrelations@nucleussoftware.com; वेबसाइटः www.nucleussoftware.com

डाक मतपत्र की सूचना

तिथि") तक पंजीकृत कराया हुआ है, को प्रेषित किया है।

डाक मतपत्र द्वारा मतदान का परिणाम मंगलवार, 30 जनवरी, 2024 को या उससे पूर्व एनएसई, बीएसई, कम्पनी की